

केन्द्रीय विद्यालय जोधपुर डोडा

शरद ऋतु अवकाश

MULTIDISCIPLINARY PROJECTS

कक्षा – VIII

SUBJECT: -HINDI

1. खाद्य सुरक्षा क्या है?
2. भारत सरकार द्वारा देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे हैं सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवेचन करें।

SUBJECT: - SANSKRIT

1. सात्विक राजसिक एवं तामसिक खाद्य पदार्थ कौन-कौन से होते हैं और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

चित्र सहित समझाएं ।

SUBJECT: - MATHEMATICS

GROUP-1 Write temperature of everyday. And how to convert temperature from Fahrenheit to Celsius. Convert everyday temperature from Fahrenheit to Celsius.

GROUP-2 Write different food items which are in cube, cuboid and cylindrical shape. Write their formula (TSA, CSA, and volume) for these shapes. Which food grain mostly grow in Jammu and Kashmir and all our India. Write their percentage.

1. Write and Learn 2 to 20
2. Revise PT-2 syllabus
3. Revise class work.

SUBJECT: - SOCIAL SCIENCE

Explore the geographical aspects of your local environment.

1. Investigate the ecosystem in your area.
2. Identify local flora and fauna.
3. Write the impact of environmental changes on biodiversity.

SUBJECT: - SCIENCE

Group1: -What is food. Paste pictures of grains and pulses and also write about them.

Group2: -What is noise pollution. Write its cause, consequences and preventive measures?

SUBJECT: - ENGLISH

1. Share stories of individuals or groups who have made a positive impact on the environment.

2. Highlight the importance of community and global efforts.

3. Research and choose a specific country or region known for its unique food culture.

4. Explore the traditional dishes, ingredients, and cooking methods.

Collect information on the cultural significance of food in that region.